

घर से परसों की कहन गए श्याम

घर से परसों की कहन गए श्याम ना आए बरसों बीत गए.....

बरसों की तो कह गए मोहन किंतु बिता दिए बरसो,
कब आवेगी बैरन परसों अखियन लागी तरसो,
अंखिया लरसों निस दिन भर से आठो याम,
ना आए बरसों बीत गए....

ऋतु कंत आवे बसंत खेतन में फूली सरसों,
मिलन हेतु मे मुरलीधर सों घर ही घर में तरसों,
राधा वर सों मेरो कह दीज्यो प्रणाम,
ना आए बरसों बीत गए.....

उजड़ी मथुरा बस गई अब तो बस्ती गई उजड़ सों,
मथुरा वाली अपनी है गई राधा है गई परसो,
मानो बृजवासी पे गयो विधाता हार,
ना आए बरसों बीत गए....

विषधर कालिया गयो है जब ते वंचित रही ज़हर सों,
मरने लायक नहीं रह गई लटकी रह अधर सों,
तडपत रह गई गयी कलेजा हार,
ना आए बरसों बीत गए.....

आचार्य राजकृष्ण

<https://bhajanganga.com/bhajan/lyrics/id/28023/title/ghar-se-parso-ki-kehan-gaye-shyam>

अपने Android मोबाइल पर [BhajanGanga](#) App डाउनलोड करें और भजनों का आनंद ले |